

外国人のための 防災ガイド

地震編

विदेशी नागरिकहरुका निम्ति प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धि निर्देशिका
(भूकम्प)



बिदेशी नागरिकहरुका निम्ति प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धि निर्देशिका (भूकम्प)

外国人のための防災ガイド(地震編)

目次

I 地震がおこったら

| | |
|-----------------|---|
| 1 地震の時におこる災害・被害 | 1 |
| 2 地震発生時の行動 | 2 |

II 災害にそなえて

| | |
|------------------|---|
| 1 地震へのそなえ | 3 |
| 2 連絡方法 | 3 |
| 3 情報の入手 | 5 |
| 4 災害へのごてろえ | 6 |
| 資料1 在関西総領事館 | 7 |
| 資料2 非常持出品/備蓄品リスト | 8 |
| 資料3 防災メモ | 9 |
| 資料4 近くの避難場所の検索 | 9 |

I भूकम्प आएमा

| | |
|--|---|
| १) भूकम्प आइमा हुन सक्ने क्षति र विपत्ति | 1 |
| २) भूकम्प आउँदा गर्नु पर्ने कार्य | 2 |

II प्रकोप नियन्त्रणको लागि पूर्वी तयारी

| | |
|--|---|
| १) भूकम्पको जोखिम नियन्त्रणको लागि पूर्वी तयारी | 3 |
| २) आफन्तसंग सम्पर्क गर्ने तरिका | 3 |
| ३) प्रकोप सम्बन्धि जानकारी लिने माध्यम | 5 |
| ४) प्रकोप नियन्त्रण बाटे पूर्वी तयारी | 6 |
| परिशिष्ट १ कान्साईमा अबस्थित बैदेशिक कम्प्युलेट कार्यालयहरु | 7 |
| परिशिष्ट २ आकस्मिक अवस्थामा बोक्ने सामाग्रीहरु र भण्डारण गरेस राख्ने सामाग्रीहरुको चेकलिए | 8 |
| परिशिष्ट ३ प्रकोप रोकथाम सम्बन्धि मेमो | 9 |
| परिशिष्ट ४ प्रकोपको बेला आश्रय लिने आफु नजिकी ठाउँको खोजि | 9 |

यो निर्देशिकामा जापानमा बसोबास गर्नुहोने बिदेशी नागरिकहरुका लागि प्रकोप (बिशेष गरि भूकम्प) को बारेमा अहिले देखिने ध्यान दिने र यदि भूकम्प आइहालेमा गर्नु पर्ने कामहरुको बारेमा जानकारी दिइएको छ। भूकम्प आउने समय थाहा हुदैन तर प्रकोप रोकथामको बारेमा पुर्व जानकारीहरु लिईराखेमा आफु तथा परिवारको जिबन जोगाउन र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुन्छ। यो निर्देशिकाबाट भूकम्पको अनुभव नभएका बिदेशी नागरिकहरु जो भाषा पनि फरक भएको बिदेशी भूमिमा हुनुहुन्छ, ले प्राकृतिक प्रकोपको बेला डर मान्न नपर्ने गरि प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धि जानकारी लिन सक्नु हुन्छ। हामीलाई आशा छ, तपाईंले प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वी तयारीका बारेमा आवश्यक ज्ञान लिई त्यसलाई व्यबहारमा उतार्नको लागि यस निर्देशिकाले तपाईंहरुलाई सहयोग गर्नेछ।

本ガイドは、在住外国人の方を対象に、災害（ここでは地震）に関して、日頃から気をつけること、いざ地震が発生した時に取るべき行動をまとめたものです。地震はいつおこるかわかりませんが、防災に関する知識を予め得ることによって、自分や家族の身を守り、被害を小さく抑えることが可能です。言葉の違う異国で地震の経験のない外国人の方が、被災時にパニックにならないよう、このガイドで防災について学んでいただき、災害へのそなえを進めていただけたら幸いです。



I भुकम्प आएमा

I 地震がおこったら

३) भुकम्प आएमा हुन सक्ने क्षति र बिपत्ति

1 地震の時におこる災害・被害

बिपत्ति 災害



(सुनामी)

समुद्रको मुनि भुकम्प गयो भने समुद्रको तल्लो सतह छुटिन गई समुद्रि सतहमा दबाव सृजना हुन्छ र सुनामी आउँछ । नदिनाला तथा समुद्र नजिक रहनुहोने व्यक्तिहरुले साबधानी अपनाउनुहोस् ।

【津波】 地震が海底でおこると、地殻のずれが海面に伝わり津波がおきます。海や川の近くにいる人は注意してください。

(आगलागी)

भुकम्प पछि आगलागी हुन सक्छ । कम्पन रोकिए पछि तुरुन्त आगो निभाउन पर्दछ । साथै आगलागी हुनासाथ निभाउन जरुरी छ ।

【火事】 地震の後、火事がおこる可能性があります。地震の揺れがおさまったらすぐに火を消して、火が出たらすぐに消火することが大切です。



(पहिरो)

पहाडको भीर-पखेराबाट पहिरो जान वा ढुंगा आदि खस्न सक्छ ।

【土砂崩れ、がけ崩れ】 山の急な斜面では土砂やがけが崩れてくる可能性があります。

(भवन संरचनाहरु भत्किने)

घर, भवनहरु भत्कन सक्छन । त्यस्तै भत्कि एका संरचनामा मानिस थिचिने, पुरिने हुन सक्छ ।

【建物の倒壊】 家や建物がこわれ、人が下敷きになる場合があります。



ैनिक जीवनमा समस्या ライフライン等の被害

(लोडसोडिङ्ग)

भुकम्पको कारणले बिजुली बत्ती जान सक्छ । त्यसैले उज्ज्यालोका लागि टर्च लाईट आदिको व्यबस्था गर्न आवश्यक छ ।



【電気が止まる】

地震の影響で、停電となることが想定されます。懐中電灯などのそなえが必要です。

(ग्याँस बन्द हुने)

भुकम्पको कारणले ग्याँस बन्द हुन सक्छ । खाना पकाउन, कोठा तताउन र नुहाउनको लागि समस्या हुन सक्छ ।

(सवारी साधन बन्द हुने)

रेल, सिन्खानसेन, सवारे रेल र बस सेवाहरु ठप्प हुन सक्छन । बिशेष गरी सहरी क्षेत्रहरुमा घर फर्कन नसक्ने मानिसहरु धेरै हुन सक्छन ।

【ガスが止まる】

地震の影響で、ガスが止まることが想定されます。調理、暖房、入浴などができるなくなる可能性があります。

(पानीको आपूर्ति बन्द)

धेरै स्थानमा धाराको पानी रोकिन सक्छ । पिउने पानीको साथै टवाइलेटमा प्रयोग गर्ने पानीको पनि अभाव हुन सक्छ ।



(संचारका साधन प्रयोग गर्न नपिल्ने)

बत्ती गएमा मोबाइल फोन, कम्प्युटर रहरु चार्ज गर्न नपाइने हुँदा परिवार संग सम्पर्क गर्न नसक्नु का साथै ईन्टरनेटमार्फत सुचना लिन पनि समस्या हुन सक्छ ।

【交通がストップする】

電車や新幹線、地下鉄、バスが止まり、特に都市部では自宅に帰れない人が多く発生します。

【通信機器が使えない】

電気が止まるため、携帯電話やパソコンの充電ができず、家族等との連絡が取れないほか、インターネットなどで情報を取りづらくなります。

२) भुकम्प आउँदा गर्नु पर्ने कार्य

2 地震発生時の行動

घरमा हुँदा 自宅

१) आफनो ज्यान जोगाउने

कम्पन आएमा पहिले टेबल मुनि लुक्ने

1 身を守る 摆れたらまず机の下にもぐる。



२) छिटो आगो निभाउने

ग्याँसको उपकरण हरु निभाइ मुख्य स्वीच बन्द गर्ने

2 すばやく火の始末

ガス器具の火を消し、元栓を閉める。



घर बाहिर हुँदा 外出先

१) कार्यालय तथा बिद्यालय

- टेबल भित्र लुक्ने
- किताबको याक तथा झायालबाट टाढा बस्ने

१ 職場・学校

- 机の下にもぐる。
- 本棚や窓からはなれる。



२) लिफ्टको भित्र भएमा

- सबै तलाको बटन दबाएर शुरुमा रोकिएको तल्लामा निस्कने
- लिफ्टको ढोका नखुलेमा आकस्मिक कल बटन थिच्ने

२ エレベーターの中

- 全ての階のボタンを押し、止まった階で降りる。
- 閉じ込められたら非常用ボタンを押す。

३) आगलागी भएमा

आगो निभाउने यन्त्र आदिको मद्दतले आगो निभाउने

3 火がでたらまず消火 消火器などですばやく消す。



४) निस्कने ढोकाको पहिचान गर्ने

आचियर बाहिर भाग्ने नभई, ढोका खोलेर बाहिर निस्कने बाटो तय गर्ने

४ 出口の確保

あわてて外に飛び出さず、ドアを開けて出口を確保する。



५) आकस्मिक समयका लागि चाहिने सामानको पहिचान गर्ने

आकस्मिक समयका लागि पहिले तयार पारि राखेको सामानहरु हेरेरे फेरी एकपटक निश्चित गरी राख्ने

5 非常持出品の確認 準備しておいた非常持出品の中身を再確認する。

६) भुकम्पको जानकारी लिने

रेडियो आदि मार्फत भुकम्प सम्बन्धी जानकारी लिई राख्ने

6 地震情報の入手 ラジオなどで地震の情報をキャッチする。

३) गाडी चलाई रहेको अवस्थामा

- गाडीको गति कम गरी सडकको बाँया तिर रोक्ने
- कम्पन नसके सम्म बाहिर ननिस्की कारको रेडियो मार्फत जानकारी लिई राख्ने
- गाडीको साँचो ननिकाली, ढोकाको साँचो नलगाई सुरक्षित स्थानमा जाने

३ 車の運転中

- スピードを落とし、道路の左側に停止させる。
- 摆れがおさまるまで外に出ず、カーラジオ等により情報収集する。
- キーをつけたままドアロックせず避難する。

४) समुद्रि तट, नदि किनार तथा ढुँगे भिर नजिक हुँदा

- उच्च स्थानको सुरक्षित स्थानमा आश्रय लिने
- समुद्रि तट, नदि किनार तथा ढुँगे भिर नजिक हुँदा जति सकदो चाँडो सुरक्षित स्थानमा जाने

४ 海岸や川ベリ・がけの近く


- 高い所に避難する。
- がけの近く・海岸や川ベリから早めに避難する。



II プロテクションのための準備

3 地震対策

地震対策 家の中や自宅のまわり



- ① ファニチャー アディ ドルン サンネ
ハナレ ドルンバアト バチャウネ
サーサン ハルコ プリヨゴ ガル
パルチ。
- 家具などが倒れないように、
転倒防止金具を取り付ける。




- ② イヤラカ シシマ フウチ ヨタタツ
チャリン サンネ ベイコロ
シシママ シル ワ フィルム
ラガウヌ パルチ。
- 窓ガラスが割れたときに飛
び散るのを防ぐ飛散防止
フィルムを貼る。



- ③ ファニチャー ラクダ ディアン ピー
ヤウネ ラ ファニチャー マギ
ガハス サマナ ラクス ハドン。

家具の置き方に注意し、家
具の上に重いものをのせ
ない。



- ④ バランダマ ベイカ バスルーハル
ミラウ ナハス ノガリ ラクス
パルチ。

ベランダに置いてあるもの
を整理し、落ちないように置
く場所に気をつける。

2 災害連絡方法

2. 連絡方法

万が一の際には、家族が離れていた場合の連絡方法と集
合場所を決めておきましょう。

① プロテクションのための準備 災害用伝言板サービス

電話番号：050-5555-5555
NTT DOCOMO NTTドコモ
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/index.html

- ① i-mode : iモードでの利用方法：
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/guidance/index.html
- ② sp-mode : スマートフォン(spモード)での利用方法：
https://www.nttdocomo.co.jp/info/disaster/disaster_board/guidance_sp/index.html

SoftBank ソフトバンク
<http://www.softbank.jp/mobile/service/dengon/>

- ① iPhone : iPhone用アプリのダウンロード：
<http://itunes.apple.com/jp/app/id425650996?mt=8#softbank>
- ② Smartphone : スマートフォン用アプリのダウンロード：
<https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.softbank.mb.dmb&hl=ja>

au au
<http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/>

- ① Smart phone・iPhone : スマートフォン・iPhoneでの利用方法：
<http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/sp-usage/>
- ② Future phone : auケータイでの利用方法：
<http://www.au.kddi.com/mobile/anti-disaster/saigai-dengon/fp-usage/>

Y! mobile ワイモバイル
<http://www.ymobile.jp/service/dengon/>

大きな災害がおきたときは、携帯電話の画面上に「災害
用伝言板の利用開始」の案内が表示されます。サービス
の有無、内容などは各通信会社のホームページ等で確
認しておきましょう。(本サービスは日本語のみ)

*下記QRコードはお使いの携帯電話の機種に対応し
ていない場合があります。



NTT DOCOMO



i-mode



sp-mode



SoftBank



iPhone



Smartphone



au



Smart phone
iPhone



Future phone



Y!mobile

② “बिपत्त सन्देश प्रबाह फोन नम्बर १७१” 災害用伝言ダイヤル 171

“बिपत्तिको बेला सन्देश प्रबाह गर्ने फोन नम्बर १७१” सेवा ठुला प्राकृतिक प्रकोप आउँदा एन टि टिले उपलब्ध गराउने सेवा प्रणाली हो। बिपत्तिको बेला ल्याण्डलाईन वा सार्वजनिक फोनबाट यस नम्बरमा डायल गरी आफ्नो सन्देश रेकर्ड गरी पठाउन र सुन्न मिल्दछ।

- * तपाईंले मोबाइल मार्फतबाट पनि १७१ नम्बरमा डायल गर्न सक्नुहुन्छ। बिस्तृत जानकारीका लागि आफ्नो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी संग सम्पर्क राख्नुहोस्।
- * आफ्नो एउटा सन्देश ३० सेकेण्ड भित्र भनि सेभ गर्नु पर्दछ।
- * साधारणतया प्रयोग शुल्क, सेवा शुल्क निशुल्क भएतापनि एन टि टि बाहेकका क्यारियरका फोनहरू बाट फोन गर्दा उक्त क्यारियर कम्पनी संग बुझ्ने राख्नु पर्दछ।
- ▶ यो {प्राकृतिक प्रकोपको समयमा प्रयोग गरिने मेसेज लेनदेनको लागि १७१ डायल} सेवाको जानकारी यो निर्देशिका तयार पार्दा सम्मको हो। अब उप्रान्त अध्यावधिक हुन सक्ने भएकोले एनटीटी निसिनिहोन वा एनटीटी हिंगासी निहोनको होमपेजमा गई बिस्तृतमा बुझ्नुहोस्।

NTTが提供する「災害用伝言ダイヤル171」は、大きな災害がおきた場合に、安否等の情報を電話(加入固定電話、公衆電話)を使って音声を録音・再生できるシステムです。

- * 171へは携帯電話からも利用できますが、詳細は各通信会社に確認
- * メッセージは1件30秒以内で本ダイヤル提供終了まで保存
- * 利用料、通話料金は基本的に無料、NTT以外の通信会社の電話から発信する場合は各通信会社に確認

▶ 本情報(災害用伝言ダイヤル171)は、本ガイド発行年月時点のものです。今後変更になる場合もありますので、詳しくはNTT西日本/NTT東日本のHPをご確認ください。

サンデশ レーケード ガルネ ৱৰিকা

(পাসবৰ্ড নভেকো অৱস্থা)

伝言の録音方法(暗証番号なしの場合)

1 7 1

1

ফোনমা গাইডান্স দিইন্ছ।
ガイダンスが流れる



স্থানীয়কোড সহিত প্রকোপ প্রভাবিত
ক্ষেত্রকো ফোনকো নম্বর ডায়ল গৰ্নুহোস। *১
市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 *1

ফোনমা গাইডান্স দিইন্ছ।
ガイダンスが流れる

সন্দেশ ডায়ল সেন্টৰমা সম্পর্ক গৰ্নুহোস।
伝言ダイヤルセンターに接続

1

আপনো সন্দেশ রেকৰ্ড গৰ্নুহোস। 伝言を録音

অন্ত্যমা 9 ডায়ল গরি সমাপ্ত গৰ্নুহোস। *২
9を入力して終了*2

サンデশ সুন্নে ৱৰিকা

(পাসবৰ্ড নভেকো অৱস্থা)

伝言の再生方法(暗証番号なしの場合)

1 7 1

2

ফোনমা গাইডান্স দিইন্ছ।
ガイダンスが流れる



স্থানীয়কোড সহিত প্রকোপ প্রভাবিত
ক্ষেত্রকো ফোনকো নম্বর ডায়ল গৰ্নুহোস। *১
市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 *1

ফোনমা গাইডান্স দিইন্ছ।
ガイダンスが流れる

সন্দেশ ডায়ল সেন্টৰমা সম্পর্ক গৰ্নুহোস।
伝言ダイヤルセンターに接続

1

সন্দেশ প্লে গৰ্নে 伝言を再生

অন্ত্যমা 9 ডায়ল গরি সমাপ্ত গৰ্নুহোস। *৩
9を入力して終了*3

- *①) प्रकोप प्रभाबित क्षेत्रमा: घर वा प्रकोप प्रभाबित क्षेत्रमा रहनु भएका व्यक्तिहरुको ल्याण्डलाईन वा मोबाइल फोनको नम्बरमा प्रकोप प्रभाबित क्षेत्र बाहेकको क्षेत्रमा: सम्पर्क गर्न चाहेको प्रभाबित क्षेत्रको ल्याण्डलाईন वा मोबाइल फोनको नम्बरमा

*②) “সন্দেশ সচাউন” কো লাগি ৮ থিচ্ছে

*③) “সন্দেশ পুন: সুন্ন” কো লাগি ৮ থিচ্ছে, “অর্কো সন্দেশ সুন্ন” কো লাগি ৯ থিচ্ছে, “সুনি সকে পঁচি সন্দেশ রেকর্ড” গৰ্ন ৩ থিচ্ছে

- *① 被災地の方:自宅または連絡を取りたい被災地の方の固定電話および携帯電話等の電話番号
- その他の地域の方:連絡を取りたい被災地の方の固定電話および携帯電話等の電話番号

*② [録音のやり直し]は8を入力

*③ [伝言を繰り返す]ときは8を、[次の伝言再生]は9を、[再生後の伝言の録音]は3を入力

③ スマートフォンによる音声お届けサービス(スマートフォン)

災害用音声お届けサービス(スマートフォン)

スマートフォンマ ビশেষ এপ্লিকেশন ডাউনলোড গরি রাখেমা ফোন প্রযোগ গর্ন নমিলেকো অবস্থামা পনি অর্কো ব্যক্তিকো ফোন নম্বর ডায়ল গরি ফোনকো মাইক মা বোলের মেসেজ পঠাউন সকিন্ত।

スマートフォンに専用アプリをダウンロードしておけば、電話がつながらない時も相手の電話番号をスマートフォンに入力し、マイクに向かって話すと〈メッセージ〉で音声を届けられます。

3 プロトコル 情報の入手

1) [オオサカ デジタル プリベント ネット] マ エクセス ガルハホス。 「おおさか防災ネット」へのアクセス

यो [オオサカ デジタル プリベント ネット] オオサカ デジタル プリベント ネット は、オオサカ デジタル プリベント ネット のアカウントをもつて、オオサカ デジタル プリベント ネット の情報を確認するためのアカウントです。オオサカ デジタル プリベント ネット のアカウントをもつて、オオサカ デジタル プリベント ネット の情報を確認するためのアカウントです。

「おおさか防災ネット」は、異常気象や地震など、災害発生時の被害・避難情報など、大阪府の幅広い防災情報を提供するポータルサイトです。日頃から災害時の緊急連絡先などを確認しておきましょう。

- [日本語版] <http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html>
- [英語版] <http://www.osaka-bousai.net.e.add.hp.transer.com/pref/index.html>
- [中国語版] <http://www.osaka-bousai.net.c.add.hp.transer.com/pref/index.html>
- [韓国・朝鮮語版] <http://www.osaka-bousai.net.k.add.hp.transer.com/pref/index.html>
- [Twitter版] [@osaka_bousai](https://twitter.com/osaka_bousai)



日本語版



英語版



中国語版



韓国・朝鮮語版



Twitter版



2) モバイル フォン サイト ([プロトコル ニュートラル コード ジャンカラリ サムニチ メール]) マ エクセス、登録

プロトコル ニュートラル コード ジャンカラリ サムニチ メール フォン サイト ([プロトコル ニュートラル コード ジャンカラリ サムニチ メール]) (<http://www.osaka-bousai.net/mobile/pref/MobilePreventInfoMail.html>) マ オオサカ デジタル プリベント ネット へアクセスする方法を示す。オオサカ デジタル プリベント ネット のアカウントをもつて、オオサカ デジタル プリベント ネット の情報を確認するためのアカウントです。

災害時には、おおさか防災ネットの携帯サイト「防災情報メール」(<http://www.osaka-bousai.net/mobile/pref/MobilePreventInfoMail.html>)に携帯電話からアクセスしてください。緊急情報や避難勧告等を入手できます。

また日頃から本サイトへメール登録しておくと、災害の時に避難に関する情報などが配信されます。

登録方法

1) touroku@osaka-bousai.net マ
2) ① touroku@osaka-bousai.net
3) ② 自動返信メール本文の
4) ③ 利用規約画面で
5) ④ 配信地域選択画面、配信条件選択画面そ
6) ⑤ QRコード

1) touroku@osaka-bousai.net マ
2) ① touroku@osaka-bousai.net
3) ② 自動返信メール本文の
4) ③ 利用規約画面で
5) ④ 配信地域選択画面、配信条件選択画面そ
6) ⑤ QRコード

2) ① touroku@osaka-bousai.net
3) ② 自動返信メール本文の
4) ③ 利用規約画面で
5) ④ 配信地域選択画面、配信条件選択画面そ
6) ⑤ QRコード

3) ① touroku@osaka-bousai.net
2) ② 自動返信メール本文の
3) ③ 利用規約画面で
4) ④ 配信地域選択画面、配信条件選択画面そ
5) ⑤ QRコード

4) ① touroku@osaka-bousai.net
2) ② 自動返信メール本文の
3) ③ 利用規約画面で
4) ④ 配信地域選択画面、配信条件選択画面そ
5) ⑤ QRコード

5) ① touroku@osaka-bousai.net
2) ② 自動返信メール本文の
3) ③ 利用規約画面で
4) ④ 配信地域選択画面、配信条件選択画面そ
5) ⑤ QRコード

४ प्रकोप नियन्त्रण बारे पुर्ब तयारी

4 災害へのこころえ

ठुलो प्राकृतिक प्रकोप आए पछिको ७२ घण्टा भनेको जिबन जिउनको लागि ज्यादै महत्वपूर्ण समय हो भनिन्छ । ठुलो प्राकृतिक प्रकोप आउनु अघि नै पहिले बाट आवश्यक सामाग्री हरुको तयारी गरि राख्नु पर्दछ ।

大きな災害がおきてからの72時間は、生き延びるための大変な時間であると言われています。大きな災害がおこる前に、必要なものは日頃からそなえておきましょう。

अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको पोका 非常持出品

भाग्ने बेलामा लिएर जाने सामानहरु एउटा झोलामा राखी राख्नु पर्दछ । उक्त झोला जुनसुकै समयमा निकाल्न सकिने स्थानमा राख्नु पर्दछ । साथै पारिवारिक संरचना, पारिवारिक जानकारी पनि तयार गरि राख्नु पर्दछ ।

逃げるときに持っていくものを、バッグにまとめておきます。用意したバッグは、いつでも持ち出せる場所に置いておきましょう。さらに家族構成や家庭の事情にあわせて、準備するものを検討しておいてください。



अत्यावश्यक सामाग्रीहरुको तयारी 備蓄品

प्राकृतिक प्रकोप आउँदा पानी, बिजुली, ग्याँस, संचार जस्ता जिबन जिउनको लागि अत्यावश्यक सेवाहरु बन्द हुन सक्छ । पुन सेवा संचालन हुने बेला सम्मको लागि पानी, खाना, दैनिक आवश्यकीय बस्तुहरु ३ दिनको लागि वा सकिन्छ भने १ हप्ताको लागि तयार गरि राख्नु पर्दछ ।

災害がおきたときは、水、電気、ガス、通信などのライフラインが止まる可能性があります。復旧までの間の水や食料、生活用品を、3日間、できれば1週間そなえておきましょう。



सुरक्षित स्थान निश्चित गर्ने 避難所の確認

घर नजिकैको सुरक्षित स्थान, आश्रय लिने स्थान कहाँ छ भन्ने कुरा निश्चित गरि राख्नु पर्दछ ।

家の近くの避難所・避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。



चुनामी आउने बेलाको लागि जाने सुरक्षित भवन

कम्पन रेकिए पछि बाढी आउने खतरा भएका इलाकाहरुमा अग्ला स्थान वा फलाम कंक्रिटबाट बनेको ३ तल्ला भन्दा अग्लो भवनहरुमा जानु होस् । चुनामीको चेतावनी, साबधानी सम्बन्धि निर्देशनहरु फुकुवा नहुदा सम्म सो स्थानबाट फर्कनु हुदैन । चुनामी आउने बेलाको लागि जाने सुरक्षित भवनको सम्बन्धमा पहिलेनै आफु बस्ने नगर/गाउँ पालिकाको हाजार्ड म्याप हेरी पत्ता लगाई राख्नु पर्दछ ।

【津波避難ビル】地震の揺れがおさまったら浸水の恐れのある地域では高台や鉄筋コンクリート3階以上の高い所へ避難して下さい。津波警報・注意報が解除されるまで決して戻らないことが重要です。津波避難ビルの位置は、市町村が出しているハザードマップ等で事前に確認しておいてください。



सुरक्षित स्थल / आश्रय स्थल

यो स्थल भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपको बेला ज्यान जोगाउनको लागि अस्थायी रूपले आश्रय लिने ठाउँ हो ।

आफु बस्ने गाउँ वा नगरपालिकाले प्रकाशित गरेको हाजार्ड म्याप आदि हेरी पहिले नै उक्त स्थान पहिचान गरि राख्नु पर्दछ ।

【避難場所】地震等の災害で、一時的に身を守るために避難する場所です。避難場所の位置は、市町村が出しているハザードマップ等で事前に確認しておいてください。

प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने तरिका सम्बन्धि कार्यक्रम (तालिम वा सेमिनार) मा सहभागी हुने 防災活動（訓練・研修会）への参加

स्थानीय निकाय, गाउँ, नगरबाट संचालन गरिने प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने तरिका सम्बन्धि कार्यक्रममा अग्रसर भई सहभागी हुने गर्ने ।



お住まいの市町村や町内会で開催される防災訓練に、積極的に参加しましょう。

【परिशिष्ट २】 कान्साईमा अवस्थित वैदेशिक कन्सुलेट कार्यालयहरु

資料 1 在関西總領事館

| कन्सुलेट कार्यालयहरु 總領事館・領事館 | ठेगाना 住所 | टेलिफोन नम्बर 電話 |
|---|--|------------------------------------|
| Australian Consulate-General in Osaka 在大阪オーストラリア総領事館 | 16F Twin 21 MID Tower, 2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6116 〒540-6116 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 MIDタワー16階 | 06-6941-9271 |
| Consulate-General of the People's Republic of China in Osaka 在大阪中華人民共和国総領事館 | 3-9-2, Utsubohonmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0004 〒550-0004 大阪市西区鞠本町3-9-2 | 06-6445-9481 |
| Consulate-General of France in Kyoto 在京都フランス総領事館 | 8 Izumidono-cho Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 606-8301 〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8 | 075-761-2988 |
| Consulate-General of the Federal Republic of Germany in Osaka-Kobe 在大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領事館 | Umeda Sky Bldg., Tower East 35F, 1-1-88-3501 Oyodonaka, Kita-ku, Osaka 531-6035 〒531-6035 大阪市北区大淀中1-1-88 梅田スカイビルタワーイースト35階 | 06-6440-5070 |
| Consulate-General of India in Osaka 在大阪インド総領事館 | Senba I.S. Bldg. 10F, 1-9-26, Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-26 船場IS.ビル10階 | 06-6261-7299 9299 |
| Consulate-General of the Republic of Indonesia in Osaka 在大阪インドネシア共和国総領事館 | Nakanoshima Intes Bldg. 22F, 6-2-40 Nakanoshima Kita-ku Osaka 530-0005 〒530-0005 大阪市北区中之島6-2-40 中之島インテスピル22階 | 06-6449-9898 |
| Consulate-General of Italy in Osaka 在大阪イタリア総領事館 | Nakanoshima-Festelival Tower 17F, 2-3-18 Nakanoshima, Kita-ku, Osaka 530-0005 〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階 | 06-4706-5820 |
| Consulate-General of the Republic of Korea in Osaka 在大阪大韓民国総領事館 | Gomi Bldg. 2-5-13, Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-13 五味ビル | 06-4256-2345 |
| Consulate-General of the Republic of Korea in Kobe 在神戸大韓民国総領事館 | 2-21-5 Nayakayate-dori, Chuo-ku, Kobe 650-0004 〒650-0004 神戸市中央区中山手通2-21-5 | 078-221-4853 4855 |
| Consulate-General of Mongolia in Osaka 在大阪モンゴル国総領事館 | Room 301, 303, 3rd Floor, Bakuro-machi Estate Bldg., 1-4-10 Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0059 〒541-0059 大阪市中央区博労町1-4-10 博労町エステートビル3階303号室 | 06-4963-2572 |
| Consulate-General of the Kingdom of the Netherlands in Osaka 在大阪オランダ王国総領事館 | Kitahama 1-Chome Heiwa Bldg. 8B, 1-1-14 Kitahama, Chuo-ku, Osaka 541-0041 〒541-0041 大阪市中央区北浜1-1-14 北浜1丁目平和ビル8階B室 | 06-6484-6000 |
| Consulate-General of the Republic of Panama in Kobe 在神戸パナマ共和国総領事館 | 7F Yamamoto Bldg., 71 Kyomachi, Chuo-ku, Kobe 650-0034 〒650-0034 神戸市中央区京町71 山本ビル7階 | 078-392-3361 3362 |
| Consulate-General of the Republic of the Philippines in Osaka 在大阪フィリピン共和国総領事館 | Twin21 Mid Tower 24F, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6124 〒540-6124 大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21 MIDタワー24階 | 06-6910-7881 |
| Consulate-General of the Russian Federation in Osaka 在大阪ロシア連邦総領事館 | 1-2-2, Nishimidorigaoka, Toyonaka-City, Osaka 560-0005 〒560-0005 豊中市西緑丘1-2-2 | 06-6848-3451 3452 |
| Royal Thai Consulate-General in Osaka 在大阪タイ王国総領事館 | Bangkok Bank Bldg. 4F, 1-9-16, Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町1-9-16 バンコク銀行ビル4階 | 06-6262-9226 9227 |
| British Consulate General in Osaka 在大阪英國総領事館 | Midosuji Grand Tower Bldg. 19F, 3-5-1 Bakuro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0059 〒541-0059 大阪市中央区博労町3-5-1 御堂筋グランタワー19階 | 06-6120-5600 |
| Consulate-General of the United States of America in Osaka-Kobe 在大阪・神戸アメリカ合衆国総領事館 | 2-11-5 Nishitenma, Kita-ku, Osaka, 530-8543 〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5 | 06-6315-5900 |
| Consulate-General of the Socialist Republic of Viet Nam in Osaka 在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館 | 4-2-15, Ichino-cho-Higashi, Sakai-ku, Sakai-City 590-0952 〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15 | 072-221-6666 |

【パリシイ 2】 資料 2 非常持出品／備蓄品リスト

आकस्मिक अबस्थामा बोक्ने सामग्रीहरू र भण्डारण गरेर राख्ने सामग्रीहरूको चेकलिष्ट

प्राकृतिक प्रकोपको समयमा हुने सम्भावित क्षति सकेसम्म कम गर्नको लागि तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा जान सक्ने गरि [आकस्मिक अबस्थामा बोक्ने सामग्रीहरू] तयारी हालतमा राख्नुहोस्। त्यस्तै, आकस्मिक राहत सेवा नपाउने बेलासम्मको लागि भण्डारण गरि राख्ने समान हरू (सके १ हप्ताको लागि नन्त्र ३ दिनको लागि) पनि तयार गरि राख्नु पर्दछ। तल दिइएको लिस्टलाई आधार मानि आफ्नो परिवारको आवश्यकता अनुसारको सामग्रीहरूको बन्दोबस्त गरि राख्नुहोस्।



災害時の被害を最小限に抑えるために、避難時にすぐ持ち出せる「非常持出品」を準備しておいてください。また次の段階として、救援物資がとくまで自足するための「備蓄品」(3日間、できれば1週間分)の準備も必要です。下記のリストを参考に、自分の家庭で必要なものを準備しておきましょう。

■ आकस्मिक अबस्थामा बोक्ने सामग्रीहरू

■ 非常持出品リスト

| सामान्य सामग्रीहरू (प्रत्येक परिवरलाई चाहिने सामग्री) | | | 基本品目 あらゆる家庭に共通して必要 | | | | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------|
| サムूह カテゴリ | チェック ボックス | サマグリ 品名 | ニシキト ゲルコ ミミ 点検日 | | サムूह カテゴリ | チェック ボックス | サマグリ 品名 | ニシキト ゲルコ ミミ 点検日 | |
| | | | パッケージ 1回目 | ドアソーパック 2回目 | | | | パッケージ 1回目 | ドアソーパック 2回目 |
| 食料品 飲料水 | <input type="checkbox"/> | पानी 飲料水 | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | व्याट्री 乾電池 | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | आकस्मिक अबस्थाको लागि खाना (विस्कुट, क्यान फुड आदि) 乾/パン/缶詰等非常食 | / | / | | <input type="checkbox"/> | मोबाइल フォン チャージャー/モババイル バッテリー | / | / |
| 生活用品 衛生用具 タオル | <input type="checkbox"/> | काम गर्ने पञ्जा 軍手 | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | मैनबत्ती/ライターロージュライター | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | टावल タオル | / | / | | <input type="checkbox"/> | बहुउद्देशीय चक्रु आर्मी-ナイフ | / | / |
| 生活用品 包装袋 ポリ袋 | <input type="checkbox"/> | प्लास्टिक व्याग ポリ袋 | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | हेल्मेट (प्याडको हेल्मेट) ヘルメット(防災ずきん) | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | ट्राइलेट पेपर/ वेट टिस्सु トイレットペーパー/ウェットティッシュ | / | / | | <input type="checkbox"/> | ボクン ミल्ने प्लास्टिक ट्राइलेट 簡易トイレ | / | / |
| 貴重品 現金 預金通帳 | <input type="checkbox"/> | पैसा (सिक्का) 現金(小銭) | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | ドライ ス्पाम 水を使わないシャンプー | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | मोबाइल フォン 携帯電話 | / | / | | <input type="checkbox"/> | जुत्ता くつ | / | / |
| 貴重品 印鑑 健康保険証 | <input type="checkbox"/> | बैंक पास बुक/ インカナ (チヤップ) 預金通帳/印鑑 | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | प्राथमिक उपचारको सामग्री, धरायसी ॲषधि, थर्मोमिटर 救急医療品/常備薬/体温計 | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | हेल्थ इन्स्योरेन्स कार्ड/ サवारी चालक प्रमाण पत्र 健康保険証写/運転免許証 | / | / | | <input type="checkbox"/> | アルコール 消毒薬 | / | / |
| その他 パスポート | <input type="checkbox"/> | पासपोर्ट パスポート | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | マスク マスク | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | रेसिडेन्ट कार्ड 在留カード | / | / | | <input type="checkbox"/> | लेखने सामग्री 筆記用具 | / | / |
| その他 電池 | <input type="checkbox"/> | टर्च लाइट 懐中電灯 | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | लुगाहरू (भित्री बस्त्र) 上着/下着 | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | बोकी हिङ्ग मिल्ने रेडियो 携帯ラジオ | / | / | | <input type="checkbox"/> | | | |

■ भण्डारण गरेर राख्ने सामग्रीहरूको चेकलिष्ट

■ 備蓄品リスト

| サムूह カテゴリ | チェック ボックス | サマグリ 品名 | ニシキト ゲルコ ミミ 点検日 | | サムूह カテゴリ | チェック ボックス | サマグリ 品名 | ニシキト ゲルコ ミミ 点検日 | |
|--------------------|--------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--|--------------------|----------------|
| | | | パッケージ 1回目 | ドアソーパック 2回目 | | | | パッケージ 1回目 | ドアソーパック 2回目 |
| 食料品 飲料水 | <input type="checkbox"/> | पानी 飲料水 | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | ठोस इन्धन 固形燃料 | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | खानेकुरा (प्याड खाना, क्य नको खाना, स्न्याक्सहरू) 食料(レトルト食品/缶詰/お菓子など) | / | / | | <input type="checkbox"/> | ब्ल्यांकेट, स्लीपिंग व्याग 毛布/寝袋 | / | / |
| 生活用品 洗面用具 | <input type="checkbox"/> | सफाईका समान 洗面用具 | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | तातो बनाउने प्याड(خाइरो) 使い捨てカイロ | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | भाँडा/ キटली 鍋/やかん | / | / | | <input type="checkbox"/> | पत्रिका 新聞紙 | / | / |
| 生活用品 簡易食器 | <input type="checkbox"/> | सामान्य भाँडाकुडा (फाल मिल्ने चपस्टिक, पेपर लेट/ पेपर कप आदि) 簡易食器(わりはし/紙皿/紙コップなど) | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | マスク マスク | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | ट्राइलेट पेपर/ वेट टिस्सु トイレットペーパー/ウェットティッシュ | / | / | | <input type="checkbox"/> | アルコール 消毒薬 | / | / |
| 生活用品 ラップ/アルミホイル | <input type="checkbox"/> | प्लास्टिक-याप/ アल्मोनियम फोइल ラップ/アルミホイル | / | / | その他 アソシエーション サマナハラ | <input type="checkbox"/> | सामान्य उपकरण (डोरी, साबेल आदि) 工具類(ロープ/スコップなど) | / | / |
| | <input type="checkbox"/> | बोकी हिङ्ह मिल्ने ग्याँस स्टोभ/ ग्याँस सिलिन्डर 卓上コンロ/ガスボンベ | / | / | | <input type="checkbox"/> | ボクン ミल्ने प्लास्टिक ट्राइलेट 簡易トイレ | / | / |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> | レンガード 雨具 | / | / |

【परिशिष्ट ३】 資料3 防災メモ प्रकोप रोकथाम सम्बन्धि मेमो

| ■ सम्बन्धित व्यक्ति ■ 本人 | | |
|---|---|---------|
| 名前 | | |
| 住所 | | |
| 電話番号 | | |
| 携帯番号 | | |
| メールアドレス | | |
| モバイルメールアドレス | | |
| 同居者氏名 | | |
| ■ パリワर/ チンजानको व्यक्तिको सम्पर्क ठेगाना ■ 家族・知り合い連絡先 | | |
| 名前 | | |
| 住所 | | |
| 電話番号 | | |
| 携帯番号 | | |
| メールアドレス | | |
| モバイルメールアドレス | | |
| 同居者氏名 | | |
| ■ 必要な連絡先 | | |
| | ファイアーレスेन (आलागी, एम्बुलेन्स) 消防署(火事、救急車) | 119 २२९ |
| | पुलिस रेसन 警察署 | 110 २२० |
| | जापान कोस्ट गार्ड 海上保安庁 | 118 २२८ |
| | प्राकृतिक प्रकोपको समयमा प्रयोग मेरेज लेनदेनको लागि डायल 災害用伝言ダイヤル | 171 २७२ |
| | नगरपालिकाको कार्यालय 市役所 | |
| | वडा कार्यालय 区役所 | |
| | 町役場 | |
| | 大蔵府大阪市中央区役所 | |
| | 中江小学校 | |
| | ビジュルी 電気 | |
| | ग्यास ガス | |
| | पानी 水道 | |
| | 避難場所 | |
| | 家族との集合場所 | |
| | その他必要な連絡先 | |

【अनुसूची ४】 資料4 近くの避難場所の検索 नजिकै को आश्रय स्थलको खोजी

やहू ! मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, आश्रय स्थलको नक्सा (कम्प्युटरको लागि)
(जापानी भाषामा मात्र)

〈PC版〉 YAHOO! 天気・災害 “避難場所マップ” (日本語のみ)

प्राकृतिक प्रकोपको कारणले खतरा भएमा स्थानीय निकायको निर्देशन गरेको आश्रय स्थल खोज सकिन्छ ।

災害による危険がせまつた時、自治体が指定した避難場所を探せます。

① YAHOO 避難場所マップ

② खोजन चाहेको आश्रय स्थल नजिकैको ठेगाना टाइप गर्नुहोस् ।

探したい避難場所の周辺住所を入力



③ បុន្យ ចាងेको आश्रय स्थलमा តិចក រៀបចំ សំគាល់ ហេត សកនុហ័ណ្ឌ ।

知りたい避難場所をクリックすると、詳細が表示される




प्रकोप नियन्त्रण सम्बन्धि जानकारी (スマートフォン भर्जन)
(अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली र जापानी भाषामा)

〈スマートフォン版アプリ〉 防災情報「全国避難所ガイド」(日英中韓)

प्राकृतिक प्रकोपको समयमा स्थानीय निकायले निर्धारण गरेको सुरक्षित आश्रय स्थलहरूको संख्या देशभर १,३०,००० रहेको छ । यो एप्लिकेशनले प्रकोपको समयमा हाल आफु रहेको स्थानबाट नजिकैको आश्रय स्थल खोजी उक्त स्थल सम्मको बाटोको रुट देखाइदिन महत गर्दछ । कृपया スマートフォンマ ダウンロード गरि प्रयोग गर्नुहोस् ।

自治体が定めた災害時の避難所や避難場所を約13万件収録し、現在地周辺の避難所などを検索して、道順をルート案内する災害用ナビゲーションアプリです。

スマートフォンにダウンロードして活用してください。



▲ iPhone



▲ Android

प्रकाशक

इन्टर्नेशनल अफेयर्स डिभिजन, ओसाका प्रमोशन ब्युरो, डिपार्टमेन्ट अफ सिभिक एण्ड कल्चरल अफेयर्स,
(काउन्सिल अफ लोकल अथोरिटिज फर इन्टर्नेशनल रिलेसन ओसाका प्रिफेक्चुअल गभर्न्मेंट ब्रान्च अफिस)
ओसाका प्रिफेक्चुअल गभर्न्मेंट साकिसिमा बिल्डिंग 37 तल्ला
३-१४-१६ नान्दो किता, सुमिनोएचु, ओसाका ५५९-८५५५
फोन: ०६-६२१०-९३०९ फ्याक्स: ०६-६२१०-९३१६
प्रकाशन मिति: २०२१ साल मार्च
पर्यवेक्षक: संकट निवारण कार्यालय

発行

府民文化部都市魅力創造局国際課（一般財団法人自治体国際化協会大阪府支部）

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎37階

TEL: 06-6210-9309 FAX: 06-6210-9316

発行年月：令和3(2021)年3月

監修：危機管理室



Osaka Prefectural Government



ओसाका प्रान्त प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी बहुभाषिक जानकारीमुलक वेबसाइट / एप
大阪府災害多言語情報ウェブサイト・アプリ

Osaka Safe Travels

"Osaka Safe Travels" प्रकोपको समयमा बहुभाषामा आवश्यक सुचना प्रबाहोक लागि बनाइएको निशुल्क वेबसाइट र स्मार्टफोन अप्लिकेशन हो। यसमा प्राकृतिक प्रकोप तथा सुरक्षित आश्रय स्थानको अलावा रेलवे सेवा, हवाई सेवा, ओसाकामा अवस्थित बिभिन्न मुलुकको कन्सुलेटको जानकारी, आकस्मिक अवस्थाको लागि सम्पर्क नम्बर लगायत बिदेशी नागरिकहरुका लागि आवश्यक पर्ने जानकारीहरु दिइएको हुन्छ। कृपया अहिले तुरुन्त "Osaka Safe Travels" डाउनलोड गर्नुहोस्।

「Osaka Safe Travels」は、災害時に必要な情報を多言語で提供する無料ウェブサイト・スマートフォンアプリです。災害や避難場所のほか、鉄道や空港、大阪などにある各国の総領事館の情報、緊急時の連絡先など、外国人の皆さんのが役立つ情報がたくさん入っています。ぜひ、今すぐ「Osaka Safe Travels」をダウンロードください!

उपलब्ध भाषाहरु 対応言語

日本語 (日本語)

English (英語／英語)

中文简体 (中国語簡体字／中国語)

中文繁體 (中国語繁体字／中国語)

한국어 (韓国語／韓国語)

Português (ポルトガル語／ポルトガル)

Español (スペイン語／スペイン)

Tiếng Việt (ベトナム語／ベトナム)

Filipino (フィリピン語／フィリピン)

ไทย (タイ語／タイ)

Bahasa Indonesia (インドネシア語／インドネシア)

नेपाली (ネパール語)

[Osaka Safe Travels](#)



[Website](#)

<https://www.osakasafetravels.com/ne/>

ニシルク
無料

GET IT ON
Google Play



▲Android

Available on the
App Store



▲iPhone



मुख्य जानकारी 主な情報



प्राकृतिक बिपति सम्बन्धी जानकारी 災害情報

भूकम्प वा सुनामी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आउने बेलामा पुश नोटिफिकेशन (सूचना) मार्फत जानकारी गर्दछौं।

地震や津波等の災害発生時にプッシュ通知でお知らせします。



अहिलेको स्थान र सुरक्षित स्थानमा जानेबारे जानकारी

現在地・避難情報

लोकेशन (स्थान) जानकारी सेवा मार्फत, तपाइङ्को हालको स्थान र नक्शामा नजिकै रहेको सुरक्षित आश्रयस्थल हरूको खोजी गर्न सक्छुन्छ।

位置情報サービスにより、マップで現在地及び周辺の避難場所等が検索できます。



विमानस्थल सम्बन्धी जानकारी 空港情報

तपाईं कानसाइ अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलको विमान उडान र अवतरण सम्बन्धी जानकारी र विमानस्थलसम्मको रेल तथा बसहरूको अप्रेशन (चलेको छ छैन) स्थितिको जाँच गर्न सक्छुन्छ।

関西国際空港のフライト情報や、空港までの鉄道・バス等の運行状況が確認できます。



रेल सेवा सम्बन्धी जानकारी 鉄道情報

नक्शामा रेल्वे सेवाको ढिलासुस्ती, सेवा स्थानको बारेमा जाँच गर्न सक्छुन्छ।

鉄道の遅延・運休の状況がマップ上ですぐに確認できます。



बैदेशिक नियोगबारे जानकारी 外国機関情報

तपाईं दुतवास या बाणिज्य दुतवासको बारेमा जानकारी पनि जाँच गर्न सक्छुन्छ।

大使館や総領事館等の情報を確認できます。